

अध्याय - 4 | व्यावसायिक सेवाएँ

QUIZ
PART-07

1. बीमा का कौन-सा कार्य हानि होने पर उससे निपटने की सुनिश्चितता देता है?
- A. सुरक्षा
B. जोखिम बाँटना
C. निश्चितता प्रदान करना
D. पूँजी निर्माण (C)

व्याख्या: बीमा हानि होने की स्थिति में उसके भुगतान को सुनिश्चित करता है, जिससे निश्चितता मिलती है।

2. बीमा किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है?
- A. जोखिम को पूरी तरह समाप्त करके
B. संभावित हानि की भरपाई करके
C. लाभ बढ़ाकर
D. ऋण उपलब्ध कराकर (B)

व्याख्या: बीमा जोखिम या घटना को रोक नहीं सकता, लेकिन उससे होने वाली हानि की पूर्ति करता है।

3. जोखिम बाँटने का तात्पर्य क्या है?
- A. जोखिम को स्वयं ही उठाना
B. जोखिम को सभी बीमित व्यक्तियों में बाँटना
C. जोखिम को बढ़ाना
D. बिना प्रीमियम के सुरक्षा देना (B)

व्याख्या: जोखिम वाली घटना होने पर हानि सभी बीमित सदस्यों में बाँटी जाती है, क्योंकि सभी प्रीमियम देते हैं।

4. पूँजी निर्माण में बीमा कैसे सहायता करता है?
- A. लाभांश बाँटकर
B. जमा राशि को गरीबों में बाँटकर
C. प्रीमियम को सुरक्षित योजनाओं में निवेश करके
D. सभी जोखिम समाप्त करके (C)

व्याख्या: बीमा प्रीमियम से प्राप्त राशि को विभिन्न सुरक्षित योजनाओं में निवेश किया जाता है, जिससे पूँजी बनती है।

5. जोखिम बाँटने के लिए बीमा कंपनियाँ किस आधार पर धन एकत्र करती हैं?
- A. ग्राहकों की संख्या
B. प्रीमियम
C. सरकारी सहायता
D. दान (B)

व्याख्या: सभी बीमित व्यक्तियों से प्राप्त प्रीमियम को ही जोखिम साझा करने में उपयोग किया जाता है।

6. बीमा निम्न में से किसे पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता?
- A. जोखिम
B. हानि की भरपाई
C. पूँजी निर्माण
D. सुरक्षा (A)

व्याख्या: बीमा जोखिम को रोक या समाप्त नहीं कर सकता, केवल हानि की भरपाई कर सकता है।

7. बीमा का कौन-सा कार्य व्यापार और उद्योग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है?
- A. मनोरंजन
B. जोखिम बाँटना
C. ऋण देना
D. खिलौने बनाना (B)

व्याख्या: व्यापारिक जोखिम कई लोगों में बाँट दिए जाते हैं, जिससे उद्योगों को स्थिरता मिलती है।

8. बीमा के माध्यम से प्राप्त प्रीमियम का उपयोग किसमें होता है?
- A. केवल कर्मचारियों के वेतन में
B. असुरक्षित कार्यों में
C. लाभकारी योजनाओं में निवेश करने में
D. खेल आयोजन कराने में (C)

व्याख्या: प्रीमियम को लाभकारी व सुरक्षित निवेश योजनाओं में लगाया जाता है ताकि पूँजी उत्पन्न हो।

9. बीमा हानि से निपटने में कैसे मदद करता है?
- A. हानि होने से रोक जाता है
B. हानि को बढ़ाता है
C. हानि के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करता है
D. हानि को अनदेखा कर देता है (C)

व्याख्या: बीमा हानि होने पर आर्थिक भरपाई करता है जिससे व्यक्ति को सहारा मिलता है।

10. बीमा का समग्र उद्देश्य क्या है?
- A. जोखिम को बढ़ाना
B. हानि की पूर्ति और आर्थिक सुरक्षा देना
C. मनोरंजन कराना
D. खर्च बढ़ाना (B)

व्याख्या: बीमा का मुख्य उद्देश्य जोखिम को बाँटकर हानि की पूर्ति करना और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।